



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 2
PART I—Section 2

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 6]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 1, 1979/माघ 12, 1900

No 6]

NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 1, 1979/MAGHA 12, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह जलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अप्रत्यक्ष कर प्रभाग

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 1979

संस्थापित

Customs and Central Excise Service formerly posted as Member, (Personnel), Central Board of Excise & Customs and ex-officio Additional Secretary in the Indirect Taxes Division of Department of Revenue, as Chairman, Central Board of Excise & Customs and ex-officio Additional Secretary in the Indirect Taxes Division of the Department of Revenue with effect from the afternoon of 31st January, 1979 until further orders vice Shri Jasjit Singh, retired.

सं० 7/का० सं० 22/6/77-प्रशा०-1 के० उ० शु० और सी० शु० बोर्ड.—राष्ट्रपति ने, भारतीय सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क सेवा के अधिकारी श्री एन० वेंकटेशन को, जो पहले सदस्य (कार्मिक) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड, और राजस्व विभाग के अप्रत्यक्ष कर प्रभाग में पदेन अपर सचिव के रूप में तैनात थे, 31 जनवरी, 1979 के अपराह्न से अगला आदेश होने तक, श्री जसजीत सिंह के स्थान पर, अध्यक्ष, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और सीमा-शुल्क बोर्ड तथा राजस्व विभाग के अप्रत्यक्ष कर प्रभाग में पदेन अपर सचिव नियुक्त किया है। श्री जसजीत सिंह सेवानिवृत्त हो गये हैं।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

INDIRECT TAXES DIVISION

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 1st February, 1979

ESTABLISHMENT

—No. 7/F. No. 22/6/77-Ad. I CBEC.—The President is pleased to appoint Shri S. Venkatesan, an Officer of Indian

सं० 8/का० सं० 10/5/77-प्रशा०-1 के० उ० शु० और सी० शु० बोर्ड (राज०).—भारतीय सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क सेवा के अधिकारी, श्री जसजीत सिंह, जो केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष और राजस्व विभाग के अप्रत्यक्ष कर प्रभाग में पदेन विशेष सचिव के रूप में तैनात थे, 31-1-1979 के अपराह्न को अधिवर्षिकी की आयु प्राप्त करने पर सरकारी सेवा से निवृत्त हो गये हैं।

एस० आर० शर्मा, उप सचिव

No. 8/F. No. 10/5/77-Ad. 1 CBE/C(Gaz.).—Shri Jasjit Singh, as Officer of the Indian Customs and Central Excise Service and posted as Chairman, Central Board of Excise & Customs and ex-officio Special Secretary in the Indirect Taxes Division of the Department of Revenue retired from Government Service on superannuation on 31-1-1979 (AN).

A. R. SHARMA, Dy. Secy.

प्रधान कार्यालय संस्थापन

सं० १/का० सं० २२/६/७७-प्रशा०-१-सी० शु० और के० उ० शु० (राज-पत्रित) —केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड (कार-बार का संस्थापन विनियमन), नियम, १९६४ के नियम ३ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए, एतद्द्वारा, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड के सदस्य तथा भारत सरकार के पदेन अपर सचिव श्री एस० वेंकटेशन को, ३१ जनवरी, १९७९ के अपराह्न में अगला आदेश होने तक अध्यक्ष, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड तथा पदेन अपर सचिव, भारत सरकार नियुक्त करती है।

पी० एल० खन्ना, अपर सचिव

HEADQUARTERS ESTABLISHMENT

No. 9/F. No. 22/6/77-Ad. I C&CE(Gaz.).—In exercise of the powers conferred by Rule 3 of the Central Board of Excise & Customs (Regulation of Transaction of Business) Rules, 1964, the Central Government hereby appoints Shri S. Venkatesan, Member, Central Board of Excise & Customs and ex-officio Additional Secretary to the Government of India as Chairman of the Central Board of Excise & Customs and ex-officio Additional Secretary to the Government of India, with effect from the afternoon of the 31st January, 1979, and until further orders.

P. L. KHANNA, Under Secy.